



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 109]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2002/माघ 10, 1923

No. 109]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2002/MAGHA 10, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2002

का.आ. 129(अ).— केंद्रीय सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की तारीख 4 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं० का.आ. 78 (अ) द्वारा संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है,

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखंड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए फीस-लोक वित्तपोषित परियोजनाएं) नियम, 1997 के नियम 3 और 9 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12 सितम्बर, 1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 2788 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जिनपर कार्रवाई ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की जा चुकी हो या करने से छूट गई हो, यह अधिसूचित करती है कि प.बंगाल राज्य में उक्त राजमार्ग पर दनकुनी और पलसित के बीच दो लेन दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के 65 कि.मी. के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्गृहीत और संदत्त की जाएगी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में इस

अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 नवम्बर, 2002 तक उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

### अनुसूची

प.बंगाल राज्य में दनकुनी और पलसित के बीच 2 लेन दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के 65 कि.मी. के उपयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरें ।

क्रम सं०      यान का प्रकार      30.11.2002 तक एक प्रतिफेरा  
यान के लिए फीस की दर (रुपए)

1.	कार/जीप/वैन	25.00
2.	हल्के वाणिज्यिक यान	45.00
3.	ट्रक/बस	90.00
4.	भारी निर्माण मशीनरी और अर्थ मूविंग उपस्कर	195.00
5.	अन्य यांत्रिक यान	कुछ नहीं

### टिप्पणी :-

1. निम्नलिखित प्रकार के यानों को फीस से छूट प्रदान की गई है, अर्थात् :-

- (i) रक्षा यान,
- (ii) अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान,
- (iii) पुलिस यान,
- (iv) अग्नि शमन यान,
- (v) एम्बुलेंस,
- (vi) अन्त्येष्टि यान
- (vii) डाक और तार विभाग के यान, और
- (viii) केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यस्थ यान
- (ix) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यस्थ यान
- (x) दुर्गापुर एक्सप्रेसवे को चौड़ा करके चार लेन बनाने की परियोजना के लिए उपयोग किए जा रहे यान

2. शासकीय रूप से निम्नलिखित से संबंधित यान, अति महत्वपूर्ण प्रतीक वाले यान समझे जाएंगे, अर्थात् :-

- (क) भारत के राष्ट्रपति,
- (ख) भारत के उप राष्ट्रपति,

- (ग) राज्यों के राज्यपाल,
- (घ) केंद्रीय और राज्य मंत्री,
- (ङ) लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान मंडलों में काबिना मंत्री स्तर के प्रतिपक्ष के नेता,
- (च) संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल
- (छ) केंद्रीय और राज्य विधान मंडल के स्पीकर या सभापति,
- (ज) कार्यकारी पार्षद,
- (झ) भारत के शासकीय दौरे पर विदेशी उच्चाधिकारी,
- (ञ) सी डी प्रतीक वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक,
- (ट) संसद सदस्य और अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में राज्य विधान सभा/परिषद के सदस्य

3. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और उस प्राधिकारी का नाम, पता टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर चौकी से 500 मी० आगे, पथकर चौकी से 100 मी० आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किया जाएगा । संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्डों को पढ़ना सहज हो सके ।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "हल्के वाणिज्यिक यान" का अर्थ वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त ऐसा मोटर यान होगा जिसका सकल यान भार 12000 कि.ग्रा. से अधिक न हो ।

[ फा. सं. आर डब्ल्यू/एन एच-12037/7/2001/डब्ल्यू बी/एन एच-9 ]

सी. सी. भट्टाचार्य, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(ROADS WING)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2002

S.O. 129(E).— WHEREAS, by the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport, number S.O.78(E), dated the 4<sup>th</sup> February, 1999 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the entire National Highway No. 2 to the National Highways Authority of India;

NOW, therefore, in exercise of powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), read with rules 3 and 9 of the National Highways (Fees for the use of National Highway Section and Permanent Bridge-Public Funded Project) Rules, 1997 and in supersession of notification number S.O. 2788(E), dated the 12<sup>th</sup> September, 1997, except as respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fees on the mechanical vehicles for the use of km. 65 of two lane Durgapur Expressway between Dankuni and Palsit on the said Highway in the State of West Bengal at the rates specified in the Schedule annexed hereto and authorizes the National Highways Authority of India to collect and retain fees at the rates specified in the said Schedule from the date of publication of this notification in the Official Gazette to the 30<sup>th</sup> November, 2002.

### **SCHEDULE**

Rates of fee to be recovered from the users of 65km. of 2 lane Durgapur Expressway between Dankuni and Palsit in the State of West Bengal.

S.No.	Type of Vehicle	Rate of fee per vehicle per one way trip for the period upto 30.11.2002 (in Rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car/Jeep/Van	25.00
2.	Light commercial Vehicle	45.00
3.	Truck/Bus	90.00
4.	Heavy Construction Machinery and Earth Moving Equipment	195.00
5.	Any other Mechanical Vehicle	NIL

### **NOTES:-**

1. The following types of vehicles are exempted from the fee, namely:-
  - (i) Defence vehicles;
  - (ii) Vehicles with Very Important Person(VIP) symbols;
  - (iii) Police Vehicles;
  - (iv) Fire fighting vehicles;
  - (v) Ambulances;
  - (vi) Funeral vans;
  - (vii) Post and Telegraph Department's vehicles, and
  - (viii) Central and State Government vehicles on duty.
  - (ix) Vehicles of National Highways Authority of India on duty
  - (x) Vehicles being used for the project of widening of Durgapur Expressway to four lanes.
2. The vehicles officially belonging to the following shall be deemed to be vehicles having VIP symbols, namely:-
  - (a) President of India;
  - (b) Vice-President of India;

- (c) Governors of States;
- (d) Central and State Ministers;
- (e) Leaders of Opposition of Lok Sabha/Rajya Sabha/State Legislatures, having the status of Cabinet Ministers;
- (f) Lt. Governors of Union Territories;
- (g) Speakers or Chairmen of Central and State Legislatures;
- (h) Executive Councilors;
- (i) Foreign dignitaries on State visit to India, and;
- (j) Foreign Diplomats stationed in India using cars with CD symbols;
- (k) Members of Parliament and Members of State Legislative Assemblies/Councils, within their respective Constituencies.

3. The rates of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the authority to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500m ahead of the toll booths, 100m ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards.

4. For the purposes of this notification the expression "Light Commercial Vehicle" shall mean a motor vehicle used for commercial purpose, the gross vehicle weight of which does not exceed 12000kgs.

[F. No. RW/NH-12037/7/2001/WB/NH-9]

C. C. BHATTACHARYA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

